

थाना दक्षिण पुलिस टीम व एसटीएफ़ उ0प्र0 द्वारा ड्रग्स सप्लायर राजेन्द्र गुप्ता व उसके महिलाओं सहित अन्य 06 ड्रग्स सप्लायरों को किया गिरफ्तार कब्जे से उच्च कोटि की 17 किलो 860 ग्राम नाजायज चरस बरामद ।

- चरस की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 27 लाख रूपये ।
- जनपद में चरस की भारी खेप अवैध चरस का व्यापार करने वालों को मुहैया करायी जाती थी ।
- सप्लायर गिरोह में महिला भी हैं शामिल जिससे न हो किसी को शक ।
- गिरोह के सम्पर्क नेपाल, बिहार, कानपुर, फिरोजाबाद व सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं स्थापित ।
- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत होनी थी अवैध चरस की सप्लाई ।
- सप्लायर गिरोह से जुड़े अन्य जनपदीय सप्लायरों का जल्द किया जाएगा खुलासा ।

थाना दक्षिण पुलिस टीम व उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉस्क फोर्स को विभिन्न माध्यमों से सूचना प्राप्त हुई कि नेपाल के बीरगंज में मादक पदार्थों की तस्करी से सम्बन्धित एक गैंग सक्रिय है जो कैरियरों के माध्यम से उ0प्र0 व सीमावर्ती प्रान्तों में मादक पदार्थों की आपूर्ति कर रहा है जिसमें मोतिहारी बिहार से चरस की भारी खेप लखनऊ होते हुए फिरोजाबाद या सीमावर्ती क्षेत्र में चरस का अवैध व्यापार करने वालों को दी जायेगी । इस सूचना पर **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद** के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना दक्षिण टीम तथा STF उत्तर प्रदेश द्वारा कल दिनांक 06.04.2021 को बस स्टैण्ड फिरोजाबाद के पास से 1. **राजेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 मेवाराम गुप्ता नि0 282 कटरा पठानान थाना दक्षिण फिरोजाबाद सहित सात अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से **कुल 17 किलो 860 ग्राम उच्च कोटि की चरस बरामद** की गयी । इन अभियुक्तों ने पूछताछ में अपने सम्पर्क नेपाल , बिहार , कानपुर , फिरोजाबाद व उसके सीमावर्ती क्षेत्र में बताये हैं । जिनके बारे में पता किया जा रहा है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण (बरामदगी सहित)-

1. राजेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 मेवाराम गुप्ता नि0 282 कटरा पठानान थाना दक्षिण फिरोजाबाद । – **5 किलो 500 ग्राम नाजायज चरस ।**
2. नीलू खाँ पुत्र तुराब खाँ नि0 ग्राम अकारु थाना मंगलपुर जिला कानपुर देहात ।- **3 किलो 100 ग्राम नाजायज चरस ।**
3. अली असगर पुत्र सलामत मियां नि0 इजाजुल अंसारी का मकान सब्जी मण्डी रेलवे स्टेशन थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर -**3 किलो 100 ग्राम नाजायज चरस ।**
4. मंसूर अली पुत्र मुमताज अली नि0 कमालपुर थाना रुरा जनपद कानपुर - मीना खातून पत्नी अली असरफ अंसारी नि0 ग्राम डूमरा थाना सीतामढ़ी जनपद सीतामढ़ी हाल पता इजाजुल अंसारी का मकान सब्जी मण्डी रेलवे स्टेशन थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर- **3 किलो 100 ग्राम नाजायज चरस ।**
5. रीता देवी पत्नी नन्दलाल पासवान नि0 सिसैनी थाना मोतिहारी जिला मोतिहारी बिहार हाल पता इजाजुल अंसारी का मकान सब्जी मण्डी रेलवे स्टेशन थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर – **01 किलो 20 ग्राम नाजायज चरस ।**
6. सकीना खातून पत्नी स्व0 सलामत मिया नि0 सिसैनी थाना मोतिहारी जिला मोतिहारी बिहार हाल पता इजाजुल अंसारी का मकान सब्जी मण्डी रेलवे स्टेशन थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर – **01 किलो 20 ग्राम नाजायज चरस ।**

7. मीना खातून पत्नी अली अशरफ नि0 ग्राम डूमरा थाना सीतामढी जनपद सीतामढी हाल पता इजाजुल अंसारी का मकान सब्जी मण्डी रेलवे स्टेशन थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर – 01 किलो 20 ग्राम नाजायज चरस ।

आपराधिक इतिहास(राजेन्द्र गुप्ता उपरोक्त)-

1-मु0अ0सं0 108/14 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मटसैना फिरोजाबाद जिसमें अभियुक्त राजेन्द्र से 9 किलो 500 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुयी थी अन्य अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास तलाश किया जा रहा है ।

अभि0गणों से कुल बरामदगी:-

1-नाजायज चरस- 17 किलो 860 ग्राम (कीमत करीब 27 लाख रू0)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. एस एच ओ श्री सुशान्त गौर थाना दक्षिण फिरोजाबाद ।
2. व0उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना दक्षिण फिरोजाबाद ।
3. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह धामा थाना दक्षिण फिरोजाबाद ।
4. उ0नि0 श्री अमित तोमर थाना दक्षिण फिरोजाबाद ।
5. का0 1330 योगेन्द्र कुमार थाना दक्षिण फिरोजाबाद ।
6. का0 568 सन्तोष थाना दक्षिण फिरोजाबाद ।
7. म0आ0 948 पूजा थाना दक्षिण फिरोजाबाद

टीम STF उत्तर प्रदेश:-

1. STF प्रभारी नि0 श्री लान सिंह ।
2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार ।
3. मु0आ0 धर्मपाल ।
4. मु0आ0 पुष्पेन्द्र
5. मु0आ0 राजकुमार
6. मु0आ0 विमल कुमार
7. आ0 कमान्डो राधे लाल